

आरती कंजबिहारी की



ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ • ॐ •

ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •
ॐ •

आरती कंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण
मुरारी की
गँले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर
बाला।
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद
नंदलाला।
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक
रही आली।
लतन में ठाढ़े बनमाली;
भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चन्द्र सी
झलक;
ललित छवि श्यामा प्यारी की॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥ x2

कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को
तरसैं।
गगन साँ सुमन रासि बरसैं;
बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;
अतुल रति गोप कुमारी की॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥ x2

जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि
श्रीगंगा।

स्मरन ते होत मोह भंगा;
बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;
चरन छवि श्रीबनवारी की॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥ x2

चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन
बेनू।

चहुँ दिसि गोपि ग्वाल धेनू;
हंसत मृदु मंद, चांदनी चंद, कटत भव फंद;
टेर सन दीन भिखारी की॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कुंजबिहारी की
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥ x2

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण
मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण
मुरारी की॥





PDF Created by -
<https://pdfcoffee.co.in/>